

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री चन्द्रभानु, कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री VR's Creations, 525-A, C-37, E Park, Maha Nagar, LUCKNOW ।
प्रार्थना पत्र संख्या 86 / 11
प्रार्थी की ओर से श्री हरमीत सिंह, अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-86 / 11, दिनांक 14.09.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **DOOR CLOSER AND FLOOR SPRING** पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?
2. फर्म की ओर से श्री हरमीत सिंह, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि उनकी फर्म डिप्टी कमिशनर, वाणिज्य कर, खण्ड-15 में पंजीकृत है तथा उनका टिन नम्बर-09250010231 है तथा उनके द्वारा DOOR CLOSER AND FLOOR SPRING की खरीद-बिक्री का व्यापार किया जाता है जिस पर वह कर की दर जानना चाहते हैं । अवगत कराया कि उनके अनुसार DOOR CLOSER AND FLOOR SPRING उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-87 के अन्तर्गत डोर फिटिंग्स के अन्तर्गत आता है क्योंकि यह दोनों वस्तुएं एक प्रकार की डोर फिटिंग हैं ।
3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-87 निम्नवत है :-

87	Nuts, bolts, screws and fasteners that is to say – hinges, nails, rivets, cotter, cotter pins, staples, panel pins; tel ki kuppi; files used by artisans; Coated and bonded abrasives, jointing materials; Fittings for doors, window and furniture including hinges-butt, piano, narrow, tee, parliament handles for locks, furniture handles, furniture knobs, drawer channel, furniture fitting, furniture hinges, furniture catchers; blue cut taks ,hob-nails, stars, studs, iron heels, bullock and horse shoes and nails; chains of all kinds ;all kinds of metal sections including slotted angles, shelves and accessories; rods, rails ,channels and curtain fittings; tower bolts, handles, aldrops, window stay, gate hook, door stopper, brackets, card clamp, clips, corners, washers, eyelets, hooks and eyes, hangers, hasps, pegs, pelmet fittings, sliding door fittings, stoppers, suspenders, springs, magic eyes, trolley wheels, pulleys and holdfasts; wire brushes.
----	---

4. एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय के पत्रांक-1290, दिनांक 13.12.11 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार DOOR CLOSER उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की किसी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है । जहाँ तक FLOOR SPRING का प्रश्न है, वह सामान्य SPRING से अलग वस्तु है व उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि

सर्वश्री VR's Creations / प्रा0 पत्र सं0-86 / 11 / धारा-59 / पृष्ठ-2

संख्या-87 के अन्तर्गत नहीं आती है तथा FLOOR SPRING भी किसी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है। अवगत कराया कि DOOR CLOSER व FLOOR SPRING पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता बनती है।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि DOOR CLOSER AND FLOOR SPRING दरवाजे की फिटिंग्स नहीं है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-87 के अन्तर्गत DOOR CLOSER AND

FLOOR SPRING सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1, 2, 3 एवं 4 किसी अनुसूची में DOOR CLOSER AND FLOOR SPRING सम्मिलित नहीं है। अतः **DOOR CLOSER AND FLOOR SPRING** पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2011

ह0 / 17.12.2011

(चन्द्रभानु)

कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।